



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 810) पटना, बृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2013

---

गृह विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2013

एस0ओ0 406, दिनांक 10 अक्टूबर 2013—बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग की अधिसूचना सं0 9362, दिनांक 10.9.2008 द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (संख्या 60,152) की धारा-3 (1) के अधीन दिनांक 18.08.2008 को कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, से संबंधित तथ्यों की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री राजेश बालिया, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया था, जिसकी विस्तारित अवधि दिनांक 30.09.2013 तक थी।

आयोग द्वारा जाँच कार्य पूरा करने के निमित्त पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया।

राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जाँच संबंधी कार्य पूरा करने के निमित्त आयोग का कार्यकाल दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

अतः जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त जाँच आयोग का कार्यकाल दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक विस्तारित किया जाता है ताकि आयोग इस विस्तारित अवधि के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन समर्पित कर सके।

(सं0 जी/06/प्र0 स0 को0/2008-9286)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
देवव्रत सिन्हा,  
सरकार के उप-सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 810-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>